

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2023—आषाढ 16, शक 1945

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2023

फा.क्र. 56-2023-3-निर्वा.नामा.-4361A.- भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

1. सं.-429-म. प्र.-2023 (1), दिनांक 07 जुलाई 2023
2. No. 429-MP-2023 (1), Dated 07th July 2023
3. सं.-429-म. प्र.-2023 (2), दिनांक 07 जुलाई 2023
4. No. 429-MP-2023 (2), Dated 07th July 2023

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 07 जुलाई 2023-16 आषाढ़, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429-म. प्र.-2023 (1).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में तथा समय-समय पर यथा-संशोधित अपनी दिनांक 16 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 429-म.प्र.-2011 (1) का अधिक्रमण करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य की सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारियों को उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
1-श्योपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर
2-विजयपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर
3-सबलगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़
4-जौरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा
5-सुमावली	डिप्टी कलेक्टर, मुरैना
6-मुरैना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना
7-दिमनी	संयुक्त कलेक्टर मुरैना
8-अम्बाह (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह
9-अटेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अटेर
10-भिण्ड	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड
11-लहार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार
12-मेहगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेहगांव
13-गोहद (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद
14-ग्वालियर ग्रामीण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर ग्रामीण
15-ग्वालियर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर सिटी
16-ग्वालियर पूर्व	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाँसी रोड
17-ग्वालियर दक्षिण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर
18-भितरवार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भितरवार
19-डबरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा
20-सेवड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेवड़ा
21-भाण्डेर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाण्डेर
22-दतिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया

(1)	(2)
23-करेरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेरा
24-पोहरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी
25-शिवपुरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी
26-पिछोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर
27-कोलारस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस
28-बामोरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बामोरी
29-गुना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना
30-चाचौड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाचौड़ा
31-राघोगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राघोगढ़
32-अशोकनगर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अशोकनगर
33-चंदेरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चंदेरी
34-मुंगावली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगावली
35-बीना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना
36-खुरई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई
37-सुरखी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़
38-देवरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी
39-रहली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली
40-नरियावली (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर
41-सागर	नगर दण्डाधिकारी सागर
42-बण्डा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा
43-टीकमगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़
44-जतारा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा
45-पृथ्वीपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पृथ्वीपुर
46-निवाड़ी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
47-खरगापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़
48-महाराजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव
49-चांदला (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर
50-राजनगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर
51-छतरपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर
52-बिजावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर
53-मलहरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ा-मलहरा
54-पथरिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया

(1)	(2)
55-दमोह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह
56-जबेरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा जिला दमोह
57-हटा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हटा
58-पवई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पवई
59-गुन्नौर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर
60-पन्ना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना
61-चित्रकूट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मझगवां
62-रैगँव (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर (ग्रामीण)
63-सतना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर (शहरी)
64-नागौद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद
65-मैहर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर
66-अमरपाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन
67-रामपुर-बघेलान	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामपुर-बघेलान
68-सिरमौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरमौर
69-सेमरिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेमरिया
70-त्यौथर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) त्यौथर
71-मऊगंज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हनुमना
72-देवतालाब	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मऊगंज
73-मनगवां (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनगवां
74-रीवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हुजूर रीवा
75-गुढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुढ़
76-चुरहट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट
77-सीधी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोपदबनास
78-सिहावल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहावल
79-चितरंगी (अ. ज. जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चितरंगी
80-सिंगरौली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली
81-देवसर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर
82-धौहनी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मझौली
83-ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी
84-जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला शहडोल
85-जैतपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर
86-कोतमा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा

(1)	(2)
87-अनूपपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर
88-पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़
89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ़
90-मानपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर
91-बड़वारा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डीमरखेड़ा
92-विजयराघवगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयराघवगढ़
93-मुड़वारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी
94-बहोरीबंद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद
95-पाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन
96-बरगी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा जिला जबलपुर
97-जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधारताल
98-जबलपुर उत्तर	संयुक्त कलेक्टर जबलपुर
99-जबलपुर कैंट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रांझी
100-जबलपुर पश्चिम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोरखपुर
101-पनागर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्रामीण जबलपुर
102-सिहोरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहोरा
103-शहपुरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा जिला डिण्डोरी
104-डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिण्डोरी
105-बिछिया (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया
106-निवास (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवास
107-मण्डला (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डला
108-बैहर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर
109-लांजी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लांजी
110-परसवाड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) किरनापुर
111-बालाघाट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट
112-वारासिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी
113-कटंगी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी
114-बरघाट (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट
115-सिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी
116-केवलारी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी
117-लखनादौन (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन
118-गोटेगांव (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोटेगांव

(1)	(2)
119—नरसिंहपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहपुर
120—तेंदूखेड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर
121—गाडरवारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गाडरवारा
122—जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलेक्टर जुन्नारदेव
123—अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	सहायक कलेक्टर अमरवाड़ा
124—चौरई	डिप्टी कलेक्टर, चौरई
125—सौंसर	सहायक कलेक्टर, सौंसर
126—छिंदवाड़ा	संयुक्त कलेक्टर, छिंदवाड़ा
127—परासिया (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, परासिया
128—पांडुर्ना (अ.ज.जा.)	संयुक्त कलेक्टर, पांडुर्ना
129—मुलताई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई
130—आमला (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर बैतूल
131—बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल
132—घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर जिला बैतूल
133—भैंसदेही (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही
134—टिमरनी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी
135—हरदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा
136—सिवनी—मालवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी—मालवा
137—होशंगाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम
138—सोहागपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला नर्मदापुरम
139—पिपरिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया
140—उदयपुरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली
141—भोजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौहरगंज
142—सांची (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायसेन
143—सिलवानी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज
144—विदिशा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विदिशा
145—बासौदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बासौदा
146—कुरवाई (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई
147—सिरोंज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज
148—शमशाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन
149—बैरसिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बैरसिया, जिला भोपाल
150—भोपाल उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल वृत्त संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल
151—नरेला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल
152—भोपाल दक्षिण—पश्चिम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

(1)	(2)
153—भोपाल मध्य	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल शहर वृत्त भोपाल
154—गोविंदपुरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल एम पी नगर वृत्त भोपाल
155—हुजूर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील हुजूर जिला भोपाल
156—बुधनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुधनी
157—आष्टा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आष्टा
158—इछावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इछावर
159—सीहोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर
160—नरसिंहगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़
161—ब्यावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा
162—राजगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़
163—खिलचीपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर
164—सारंगपुर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगपुर
165—सुसनेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर
166—आगर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर
167—शाजापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर
168—शुजालपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर
169—कालापीपल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कालापीपल
170—सोनकच्छ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोनकच्छ
171—देवास	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास
172—हाटपिपल्या	संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर अधिकारी (राजस्व) देवास
173—खातेगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव
174—बागली (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागली
175—मांधाता	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा
176—हरसूद (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद
177—खण्डवा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा
178—पंधाना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंधाना
179—नेपानगर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर
180—बुरहानपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुरहानपुर
181—भीकनगांव (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव
182—बड़वाह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह
183—महेश्वर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर
184—कसरावद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद
185—खरगौन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगौन
186—भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भगवानपुरा

(1)	(2)
187—सेधवा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेधवा
188—राजपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर
189—पानसेमल (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल
190—बड़वानी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी
191—अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर
192—जोबट (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट
193—झाबुआ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ
194—थांदला (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला
195—पेटलावद (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद
196—सरदारपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर
197—गंधवानी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तहसील गंधवानी
198—कुक्षी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुक्षी
199—मनावर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर
200—धरमपुरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तहसील धरमपुरी
201—धार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार
202—बदनावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर
203—देपालपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देपालपुर
204—इंदौर-1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हातोद
205—इंदौर-2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कनाडिया
206—इंदौर-3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जूनी इंदौर
207—इंदौर-4	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुडैल
208—इंदौर-5	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिचौली हप्सी
209—डॉ. अम्बेडकर नगर—महू	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)
210—राऊ	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राऊ
211—सांवेर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सांवेर
212—नागदा—खाचरौद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खाचरौद
213—महिदपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर
214—तराना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना
215—घटिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घटिया
216—उज्जैन उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन शहर
217—उज्जैन दक्षिण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन ग्रामीण
218—बड़नगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़नगर
219—रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रतलाम ग्रामीण
220—रतलाम सिटी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रतलाम सिटी

(1)	(2)
221-सैलाना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना
222-जावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा
223-आलोट (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आलोट
224-मन्दसौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मन्दसौर
225-मल्हारगढ़ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मल्हारगढ़
226-सुवासरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामरु
227-गरोठ	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरोठ
228-मनासा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा
229-नीमच	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच
230-जावद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 7th July 2023—Ashadha 16, (Saka) 1945

NOTIFICATION

No. 429-MP-2023 (1)--In pursuance of provisions of sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), and in supersession of its notification No.429-MP-2011 (1) dated 16th September, 2011, as amended from time to time, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, the Officers of the said Government as specified in column (2) of the Table below, as the Electoral Registration Officer of the Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, as specified in column (1) of the said Table against such Officer:-

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
(1)	(2)
1-Sheopur	Sub Divisional Officer (Revenue) Sheopur
2-Vijaypur	Sub Divisional Officer (Revenue) Vijaypur
3-Sabalgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Sabalgarh
4-Jaura	Sub Divisional Officer (Revenue) Jaura
5-Sumawali	Deputy Collector Morena
6-Morena	Sub Divisional Officer (Revenue) Morena
7-Dimani	Joint Collector Morena

(1)	(2)
8-Ambah (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ambah
9-Ater	Sub Divisional Officer (Revenue) Ater
10-Bhind	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhind
11-Lahar	Sub Divisional Officer (Revenue) Lahar
12-Mehgaon	Sub Divisional Officer (Revenue) Mehgaon
13-Gohad (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Gohad
14-Gwalior Rural	Sub-Divisional Officer (Revenue) Gwalior Rural
15-Gwalior	Sub Divisional Officer (Revenue) Gwalior City
16-Gwalior East	Sub-Divisional Officer (Revenue) Jhanshi Road
17-Gwalior South	Sub-Divisional Officer (Revenue) Lashkar
18-Bhitarwar	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhitarwar
19-Dabra (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Dabra
20-Sewda	Sub Divisional Officer (Revenue) Sewda
21-Bhander (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhander
22-Datia	Sub Divisional Officer (Revenue) Datia
23-Karera (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Karera
24-Pohari	Sub Divisional Officer (Revenue) Pohari
25-Shivpuri	Sub Divisional Officer (Revenue) Shivpuri
26-Pichhore	Sub Divisional Officer (Revenue) Pichhore
27-Kolaras	Sub Divisional Officer (Revenue) Kolaras
28-Bamori	Sub Divisional Officer (Revenue) Bamori
29-Guna (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Guna
30-Chachoura	Sub Divisional Officer (Revenue) Chachoura
31-Raghogarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Raghogarh
32-Ashok Nagar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ashok Nagar
33-Chanderi	Sub Divisional Officer (Revenue) Chanderi
34-Mungaoli	Sub Divisional Officer (Revenue) Mungaoli
35-Bina (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bina
36-Khurai	Sub Divisional Officer (Revenue) Khurai
37-Surkhi	Sub Divisional Officer (Revenue) Rahatgarh
38-Deori	Sub Divisional Officer (Revenue) Deori
39-Rahli	Sub Divisional Officer (Revenue) Rahli
40-Naryoli (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sagar
41-Sagar	City Magistrate Sagar
42-Banda	Sub Divisional Officer (Revenue) Banda

(1)	(2)
43-Tikamgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Tikamgarh
44-Jatara (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jatara
45-Prithvipur	Sub Divisional Officer (Revenue) Prithvipur
46-Niwari	Sub Divisional Officer (Revenue) Niwari
47-Khargapur	Sub Divisional Officer (Revenue) Baldevgarh
48-Maharajpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Nawgaon
49-Chandla (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Lavkushnagar
50-Rajnagar	Sub Divisional Officer (Revenue) Rajnagar
51-Chhatarpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Chhatarpur
52-Bijawar	Sub Divisional Officer (Revenue) Bijawar
53-Malhara	Sub Divisional Officer (Revenue) Bada-Malhara
54-Pathariya	Sub Divisional Officer (Revenue) Pathariya
55-Damoh	Sub Divisional Officer (Revenue) Damoh
56-Jabera	Sub-Divisional Officer (Revenue) Tendukheda District Damoh
57-Hatta (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Hatta
58-Pawai	Sub Divisional Officer (Revenue) Pawai
59-Gunnaor (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Gunnour
60-Panna	Sub Divisional Officer (Revenue) Panna
61-Chitrakoot	Sub Divisional Officer (Revenue) Majhgawa
62-Raigaon (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Raghurajnagar (Rural)
63-Satna	Sub Divisional Officer (Revenue) Raghurajnagar (Urban)
64-Nagod	Sub Divisional Officer (Revenue) Nagod
65-Maihar	Sub Divisional Officer (Revenue) Maihar
66-Amarpatan	Sub Divisional Officer (Revenue) Amarpatan
67-Rampur-Baghelan	Sub Divisional Officer (Revenue) Rampur-Baghelan
68-Sirmour	Sub Divisional Officer (Revenue) Sirmour
69-Semariya	Sub Divisional Officer (Revenue) Semariya
70-Teonthar	Sub Divisional Officer (Revenue) Teonthar
71-Mauganj	Sub Divisional Officer (Revenue) Hanumana
72-Deotalab	Sub Divisional Officer (Revenue) Mauganj
73-Mangawan (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Mangawan
74-Rewa	Sub Divisional Officer (Revenue) Huzur Rewa
75-Gurh	Sub Divisional Officer (Revenue) Gurh
76-Churhat	Sub Divisional Officer (Revenue) Churhat
77-Sidhi	Sub Divisional Officer (Revenue) Gopad Banas

(1)	(2)
78-Sihawal	Sub Divisional Officer (Revenue) Sihawal
79-Chitrangi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Chitrangi
80-Singrauli	Sub Divisional Officer (Revenue) Singrauli
81-Devsar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Devsar
82-Dhauhani (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Majhouli
83-Beohari (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Beohari
84-Jaisinghnagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sohagpur District Shahdol
85-Jaitpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jaitpur
86-Kotma	Sub Divisional Officer (Revenue) Kotma
87-Anuppur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Anuppur
88-Pushprajgarh (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pushprajgarh
89-Bandhavgarh (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bandhavgarh
90-Manpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Manpur
91-Barwara (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Dheemarkheda
92-Vijayraghavgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Vijayraghavgarh
93-Murwara	Sub Divisional Officer (Revenue) Katni
94-Bahoriband	Sub Divisional Officer (Revenue) Bahoriband
95-Patan	Sub Divisional Officer (Revenue) Patan
96-Bargi	Sub Divisional Officer (Revenue) Shahpura District Jabalpur
97-Jabalpur Purba (SC)	Sub-Divisional Officer (Revenue) Adhartal
98-Jabalpur Uttar	Joint Collector Jabalpur
99-Jabalpur Cantt.	Sub Divisional Officer (Revenue) Ranjhi
100-Jabalpur Paschim	Sub Divisional Officer (Revenue) Gorakhpur
101-Panagar	Sub-Divisional Officer (Revenue) Rural Jabalpur
102-Sihora (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sihora
103-Shahpura (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Shahpura District Dindori
104-Dindori (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Dindori
105-Bichhiya (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bichhiya
106-Niwas (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Niwas
107-Mandla (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Mandla
108-Baihar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Baihar
109-Lanji	Sub Divisional Officer (Revenue) Lanji
110-Paraswada	Sub Divisional Officer (Revenue) Kirnapur
111-Balaghat	Sub Divisional Officer (Revenue) Balaghat
112-Waraseoni	Sub Divisional Officer (Revenue) Waraseoni
113-Katangi	Sub Divisional Officer (Revenue) Katangi

(1)	(2)
114-Barghat (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Barghat
115-Seoni	Sub Divisional Officer (Revenue) Seoni
116-Keolari	Sub Divisional Officer (Revenue) Keolari
117-Lakhnadon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Lakhnadon
118-Gotegaon (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Gotegaon
119-Narsinghpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Narsinghpur
120-Tendukheda	Sub Divisional Officer (Revenue) Tendukheda District Narsinghpur
121-Gadarwara	Sub Divisional Officer (Revenue) Gadarwara
122-Junnardeo (ST)	Deputy Collector Junnardeo
123-Amarwara (ST)	Assistant Collector Amarwara
124-Churai	Deputy Collector Churai
125-Saunsar	Assistant Collector Saunsar
126-Chhindwara	Joint Collector Chhindwara
127-Parasia (SC)	Deputy Collector Parasia
128-Pandhurna (ST)	Joint Collector Pandhurna
129-Multai	Sub Divisional Officer (Revenue) Multai
130-Amla (SC)	Deputy Collector Betul
131-Betul	Sub Divisional Officer (Revenue) Betul
132-Ghoradongri (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue) Shahpur District Betul
133-Bhainsdehi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhainsdehi
134-Timarni (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Timarni
135-Harda	Sub Divisional Officer (Revenue) Harda
136-Seoni Malwa	Sub-Divisional Officer (Revenue) Seoni-Malwa
137-Hoshangabad	Sub Divisional Officer (Revenue) Narmadapuram
138-Sohagpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Sohagpur District Narmadapuram
139-Pipariya (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pipariya
140-Udaipura	Sub Divisional Officer (Revenue) Bareilly
141-Bhojpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Goharganj
142-Sanchi (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Raisen
143-Silwani	Sub Divisional Officer (Revenue) Begumganj
144-Vidisha	Sub-Divisional Officer (Revenue) Vidisha
145-Basoda	Sub Divisional Officer (Revenue) Basoda
146-Kurwai (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Kurwai
147-Sironj	Sub Divisional Officer (Revenue) Sironj
148-Shamshabad	Sub Divisional Officer (Revenue) Nateran
149-Berasia (SC)	Sub-Divisional Officer (Revenue) Tehsil Berasia District Bhopal

(1)	(2)
150-Bhopal uttar	Sub-Divisional Officer (Revenue) Nazul Circle, Sant Hirdaram Nagar (Bairagarh) Bhopal
151-Narela	Sub-Divisional Officer (Revenue) Nazul Govindpura Circle, Bhopal
152-Bhopal Dakshin-Paschim	Sub-Divisional Officer (Revenue) Nazul T.T. Nagar Circle, Bhopal
153-Bhopal Madhya	Sub-Divisional Officer (Revenue) Nazul City Circle, Bhopal
154-Govindpura	Sub Divisional Officer (Revenue) Nazul MP Nagar Circle, Bhopal
155-Huzur	Sub-Divisional Officer (Revenue) Tehsil Huzur, District Bhopal
156-Budhni	Sub Divisional Officer (Revenue) Budhni
157-Ashta (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ashta
158-Ichhawar	Sub Divisional Officer (Revenue) Ichhawar
159-Sehore	Sub Divisional Officer (Revenue) Sehore
160-Narsinghgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Narsinghgarh
161-Biaora	Sub Divisional Officer (Revenue) Biaora
162-Rajgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Rajgarh
163-Khilchipur	Sub Divisional Officer (Revenue) Khilchipur
164-Sarangpur (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sarangpur
165-Susner	Sub Divisional Officer (Revenue) Susner
166-Agar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Agar
167-Shajapur	Sub Divisional Officer (Revenue) Shajapur
168-Shujalpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Shujalpur
169-Kalapipal	Sub Divisional Officer (Revenue) Kalapipal
170-Sonkatch (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sonkatch
171-Dewas	Sub Divisional Officer (Revenue) Dewas
172-Hatpipliya	Joint Collector/Deputy Collector Officer (Revenue), Dewas
173-Khategaon	Sub Divisional Officer (Revenue) Khategaon
174-Bagali (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bagli
175-Mandhata	Sub Divisional Officer (Revenue) Punasa
176-Harsud (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Harsud
177-Khandwa (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Khandwa
178-Pandhana (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pandhana
179-Nepanagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Nepanagar
180-Burhanpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Burhanpur
181-Bhikangaon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhikangaon
182-Badwah	Sub Divisional Officer (Revenue) Badwah
183-Maheshwar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Mandleshwar
184-Kasrawad	Sub Divisional Officer (Revenue) Kasrawad

(1)	(2)
185-Khargone	Sub Divisional Officer (Revenue) Khargone
186-Bhagwanpura (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhagwanpura
187-Sendhwa (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sendhwa
188-Rajpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Rajpur
189-Pansemal (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pansemal
190-Badwani (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Badwani
191-Alirajpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Alirajpur
192-Jobat (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jobat
193-Jhabua (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jhabua
194-Thandla (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Thandla
195-Petlavad (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Petlavad
196-Sardarpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sardarpur
197-Gandhwani (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue) Manawar, Tehsil Gandhwani
198-Kukshi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Kukshi
199-Manawar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Manawar
200-Dharampuri (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Manawar, Tehsil Dharampuri
201-Dhar	Sub Divisional Officer (Revenue) Dhar
202-Badnawar	Sub Divisional Officer (Revenue) Badnawar
203-Depalpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Depalpur
204-Indore-1	Sub-Divisional Officer (Revenue) Hatod
205-Indore-2	Sub-Divisional Officer (Revenue) Kanadiya
206-Indore-3	Sub-Divisional Officer (Revenue) Juni Indore
207-Indore-4	Sub-Divisional Officer (Revenue) Khudel
208-Indore-5	Sub-Divisional Officer (Revenue) Bhicholi Hapsi
209-Dr. Ambedkar Nagar-Mhow	Sub-Divisional Officer (Revenue) Dr. Ambedkar Nagar-Mhow
210-Rau	Sub Divisional Officer (Revenue) Rau
211-Sanwer (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sanwer
212-Nagda-Khachraud	Sub-Divisional Officer (Revenue) Khachraud
213-Mahidpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Mahidpur
214-Tarana (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Tarana
215-Ghatiya (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ghatiya
216-Ujjain Uttar	Sub-Divisional Officer (Revenue) Ujjain City
217-Ujjain Dakshin	Sub-Divisional Officer (Revenue) Ujjain Rural
218-Badnagar	Sub Divisional Officer (Revenue) Badnagar
219-Ratlam Rural (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ratlam Rural
220-Ratlam City	Sub Divisional Officer (Revenue) Ratlam City

(1)	(2)
221-Sailana (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sailana
222-Jaora	Sub Divisional Officer (Revenue) Jaora
223-Alot (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Alot
224-Mandsaur	Sub Divisional Officer (Revenue) Mandsour
225-Malhargarh (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Malhargarh
226-Suwasra	Sub Divisional Officer (Revenue) Sitamau
227-Garoth	Sub Divisional Officer (Revenue) Garoth
228-Manasa	Sub Divisional Officer (Revenue) Manasa
229-Neemuch	Sub Divisional Officer (Revenue) Neemuch
230-Jawad	Sub Divisional Officer (Revenue) Jawad

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 07 जुलाई 2023 16 आषाढ़, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429-म. प्र.-2023 (2).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में तथा समय-समय पर यथा संशोधित अपनी दिनांक 16 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 429-म. प्र.-2011 (2) का अधिक्रमण करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य की सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारियों को उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथाविनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(1)	(2)
1-श्यापुर	तहसीलदार श्यापुर तहसीलदार बड़ौदा नायब तहसीलदार मानपुर
2-विजयपुर	तहसीलदार विजयपुर तहसीलदार बीरपुर तहसीलदार कराहल
3-सबलगढ़	तहसीलदार सबलगढ़ नायब तहसीलदार-1 सबलगढ़ नायब तहसीलदार-1 कैलारस

(1)	(2)
4-जौरा	तहसीलदार कैलारस नायब तहसीलदार -1 जौरा नायब तहसीलदार -2 जौरा
5-सुमावली	तहसीलदार जौरा नायब तहसीलदार -मुरैना शहरी नायब तहसीलदार-3 जौरा
6-मुरैना	तहसीलदार मुरैना शहरी नायब तहसीलदार - बानमोर नायब तहसीलदार-1 मुरैना ग्रामीण
7-दिमनी	तहसीलदार अम्बाह नायब तहसीलदार-1 अम्बाह नायब तहसीलदार-2 मुरैना ग्रामीण
8-अम्बाह (अ.जा.)	तहसीलदार पोरसा नायब तहसीलदार-2 अम्बाह नायब तहसीलदार पोरसा
9-अटेर	तहसीलदार अटेर नायब तहसीलदार सुरपुरा
10-भिण्ड	तहसीलदार भिण्ड (शहरी) तहसीलदार भिण्ड (ग्रामीण)
11-लहार	तहसीलदार लहार तहसीलदार मिहोना
12-मेहगांव	तहसीलदार मेहगांव तहसीलदार गोरमी
13-गोहद (अ.जा.)	तहसीलदार गोहद तहसीलदार मौ
14-ग्वालियर ग्रामीण	तहसीलदार तानसेन नायब तहसीलदार बड़ागाँव नायब तहसीलदार पुरानी छावनी
15-ग्वालियर	अपर तहसीलदार कुलैथ अपर तहसीलदार बहोड़ापुर नायब तहसीलदार मुरार
16-ग्वालियर पूर्व	तहसीलदार मुरार तहसीलदार सिटी सेंटर अपर तहसीलदार महलगांव
17-ग्वालियर दक्षिण	तहसीलदार ग्वालियर वृत्त गिरवाई अपर तहसीलदार वृत्त लश्कर अधीक्षक भूमि अभिलेख (नियमित)

(1)	(2)
18-भितरवार	तहसीलदार भितरवार तहसीलदार चीनौर तहसीलदार घाटीगाँव
19-डबरा (अ.जा.)	तहसीलदार डबरा नायब तहसीलदार राजस्व वृत्त बिलौआ नायब तहसीलदार राजस्व वृत्त पिछोर
20-सेवड़ा	तहसीलदार सेवड़ा
21-भाण्डेर (अ.जा.)	तहसीलदार भाण्डेर
22-दतिया	तहसीलदार दतिया
23-करेरा (अ.जा.)	तहसीलदार करेरा तहसीलदार नरवर
24-पोहरी	तहसीलदार पोहरी तहसीलदार बैराड़
25-शिवपुरी	तहसीलदार शिवपुरी नायब तहसीलदार शिवपुरी
26-पिछोर	तहसीलदार पिछोर तहसीलदार खनियाधाना
27-कोलारस	तहसीलदार कोलारस तहसीलदार बदरवास
28-बामोरी	तहसीलदार बामोरी तहसीलदार गुना (ग्रामीण)
29-गुना (अ.जा.)	तहसीलदार गुना तहसीलदार गुना (ग्रामीण) तहसीलदार आरोन
30-चाचौड़ा	तहसीलदार चाचौड़ा तहसीलदार कुम्भराज तहसीलदार मधुसूदनगढ़
31-राघोगढ़	तहसीलदार राघोगढ़ तहसीलदार आरोन तहसीलदार मधुसूदनगढ़
32-अशोकनगर (अ.जा.)	तहसीलदार अशोकनगर नायब तहसीलदार अशोकनगर तहसीलदार शाढौरा

(1)	(2)
33-चंदेरी	तहसीलदार चंदेरी तहसीलदार ईसागढ़ तहसीलदार नईसराय
34-मुंगावली	तहसीलदार मुंगावली तहसीलदार पिपरई तहसीलदार बहादुरपुर तहसीलदार चंदेरी
35-बीना (अ.जा.)	तहसीलदार बीना
36-खुरई	तहसीलदार खुरई तहसीलदार मालथौन
37-सुरखी	तहसीलदार राहतगढ़ तहसीलदार जैसीनगर
38-देवरी	तहसीलदार देवरी तहसीलदार केसली
39-रहली	तहसीलदार रहली तहसीलदार गढ़ाकोटा
40-नरयावली (अ.जा.)	तहसीलदार सागर
41-सागर	तहसीलदार (शहरी) सागर अधीक्षक भू-अभिलेख सागर
42-बण्डा	तहसीलदार बण्डा तहसीलदार शाहगढ़
43-टीकमगढ़	तहसीलदार टीकमगढ़ तहसीलदार बड़ागांव नायब तहसीलदार समर्पा
44-जतारा (अ.जा.)	तहसीलदार जतारा तहसीलदार लिधौरा नायब तहसीलदार बराना
45-पृथ्वीपुर	तहसीलदार पृथ्वीपुर नायब तहसीलदार जैरोन खालसा नायब तहसीलदार नैगुवा
46-निवाड़ी	तहसीलदार निवाड़ी नायब तहसीलदार तरीचरकला तहसीलदार ओरछा
47-खरगापुर	तहसीलदार बल्देवगढ़ तहसीलदार खरगापुर तहसीलदार पलेरा

(1)	(2)
48—महाराजपुर	तहसीलदार नौगाँव नायब तहसीलदार नौगाँव तहसीलदार महाराजपुर
49—चांदला (अ.जा.)	तहसीलदार लवकुशनगर तहसीलदार चंदला तहसीलदार गौरिहार
50—राजनगर	तहसीलदार राजनगर नायब तहसीलदार राजनगर नायब तहसीलदार चन्द्रनगर
51—छतरपुर	तहसीलदार छतरपुर (नगर) तहसीलदार छतरपुर (ग्रामीण) नायब तहसीलदार छतरपुर
52—बिजावर	तहसीलदार बिजावर नायब तहसीलदार बिजावर नायब तहसीलदार देवरा
53—मलहरा	तहसीलदार बड़ा—मलहरा तहसीलदार बकस्वाहा तहसीलदार घुवारा
54—पथरिया	प्रभारी तहसीलदार पथरिया प्रभारी तहसीलदार बटियागढ़
55—दमोह	तहसीलदार दमोह तहसीलदार दमयंतीपुरम दमोह
56—जबेरा	तहसीलदार तेंदूखेड़ा जिला दमोह प्रभारी तहसीलदार जबेरा
57—हटा (अ.जा.)	प्रभारी तहसीलदार हटा नायब तहसीलदार पटेरा
58—पवई	तहसीलदार पवई तहसीलदार शाहनगर तहसीलदार सिमरिया तहसीलदार रैपुरा
59—गुन्नौर (अ.जा.)	तहसीलदार गुन्नौर तहसीलदार देवेन्द्रनगर तहसीलदार अमानगंज

(1)	(2)
60-पन्ना	तहसीलदार पन्ना तहसीलदार अजयगढ़ अधीक्षक भू-अभिलेख पन्ना
61-चित्रकूट	तहसीलदार मझगवां तहसीलदार बिरसिंहपुर
62-रैगाँव (अ.जा.)	तहसीलदार कोठी तहसीलदार नागौद
63-सतना	तहसीलदार रघुराजनगर
64-नागौद	तहसीलदार नागौद तहसीलदार उचेहरा
65-मैहर	तहसीलदार मैहर
66-अमरपाटन	तहसीलदार अमरपाटन तहसीलदार, रामनगर
67-रामपुर-बघेलान	तहसीलदार रामपुर-बघेलान तहसीलदार कोटर
68-सिरमौर	तहसीलदार सिरमौर तहसीलदार जवा
69-सेमरिया	तहसीलदार सेमरिया तहसीलदार हुजूर (ग्रामीण) रीवा
70-त्यौथर	तहसीलदार त्यौथर
71-मरुगंज	तहसीलदार हनुमना तहसीलदार मरुगंज
72-देवतालाब	तहसीलदार मरुगंज तहसीलदार नईगढ़ी
73-मनगवाँ (अ.जा.)	तहसीलदार मनगवाँ तहसीलदार सिरमौर
74-रीवा	तहसीलदार हुजूर रीवा (शहरी) तहसीलदार हुजूर रीवा (ग्रामीण)
75-गुढ़	तहसीलदार गुढ़ तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान
76-चुरहट	तहसीलदार चुरहट तहसीलदार रामपुर नैकिन नायब तहसीलदार चुरहट
77-सीधी	तहसीलदार गोपद बनास नायब तहसीलदार गोपद बनास नायब तहसीलदार (सेमरिया) गोपद बनास

(1)	(2)
78-सिहावल	तहसीलदार सिहावल तहसीलदार बहरी नायब तहसीलदार सिहावल
79-चितरंगी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार चितरंगी
80-सिंगरौली	तहसीलदार सिंगरौली
81-देवसर (अ.जा.)	तहसीलदार देवसर
82-धौहनी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार मझौली तहसीलदार कुसमी नायब तहसीलदार मझौली
83-ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार ब्यौहारी नायब तहसीलदार जयसिंहनगर नायब तहसीलदार ब्यौहारी
84-जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार सोहागपुर जिला शहडोल नायब तहसीलदार गोहपारू नायब तहसीलदार सोहागपुर
85-जैतपुर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार जैतपुर नायब तहसीलदार बुढ़ार नायब तहसीलदार जैतपुर
86-कोतमा	तहसीलदार कोतमा
87-अनूपपुर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार अनूपपुर
88-पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)	तहसीलदार पुष्पराजगढ़
89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	तहसीलदार बांधवगढ़ तहसीलदार चंदिया तहसीलदार नौरोजाबाद
90-मानपुर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार मानपुर तहसीलदार पाली
91-बड़वारा (अ.ज.जा.)	तहसीलदार बड़वारा तहसीलदार ढीमरखेड़ा
92-विजयराघवगढ़	तहसीलदार विजयराघवगढ़ तहसीलदार बरही
93-मुड़वारा	तहसीलदार शहर तहसीलदार ग्रामीण
94-बहोरीबंद	तहसीलदार बहोरीबंद तहसीलदार शीठी

(1)	(2)
95-पाटन	तहसीलदार पाटन तहसीलदार मझौली नायब तहसीलदार कटंगी जबलपुर
96-बरगी	तहसीलदार जबलपुर (ग्रामीण) तहसीलदार शहपुरा जिला जबलपुर
97-जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	तहसीलदार नजूल कलेक्ट्रेट जबलपुर नायब तहसीलदार नजूल कलेक्ट्रेट जबलपुर
98-जबलपुर उत्तर	तहसीलदार अधारताल जबलपुर
99-जबलपुर कैंट	तहसीलदार रांझी जबलपुर
100-जबलपुर पश्चिम	तहसीलदार गोरखपुर जबलपुर नायब तहसीलदार गोरखपुर जबलपुर
101-पनागर	तहसीलदार पनागर जबलपुर तहसीलदार बरेला जबलपुर
102-सिहोरा (अ.ज.जा.)	तहसीलदार सिहोरा जबलपुर तहसीलदार कुण्डम जबलपुर
103-शहपुरा (अ.ज.जा.)	तहसीलदार शहपुरा जिला डिण्डोरी
104-डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार डिण्डोरी तहसीलदार बजाग
105-बिछिया (अ.ज.जा.)	तहसीलदार घुघरी तहसीलदार बिछिया
106-निवास (अ.ज.जा.)	तहसीलदार नारायणगंज तहसीलदार निवास तहसीलदार मण्डला
107-मण्डला (अ.ज.जा.)	तहसीलदार नैनपुर तहसीलदार मण्डला
108-बैहर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार बैहर तहसीलदार बिरसा
109-लांजी	तहसीलदार लांजी तहसीलदार किरनापुर
110-परसवाड़ा	तहसीलदार परसवाड़ा नायब तहसीलदार-1 लामता बालाघाट
111-बालाघाट	तहसीलदार बालाघाट तहसीलदार लालबर्ग

(1)	(2)
112-वारासिवनी	तहसीलदार वारासिवनी
	तहसीलदार खैरलांजी
113-कटंगी	तहसीलदार कटंगी
	तहसीलदार तिरोड़ी
114-बरघाट (अ.ज.जा.)	तहसीलदार बरघाट
	तहसीलदार कुरई
115-सिवनी	तहसीलदार सिवनी
	तहसीलदार छपारा
116-केवलारी	तहसीलदार केवलारी
	तहसीलदार धनौरा
117-लखनादौन (अ.ज.जा.)	तहसीलदार लखनादौन
	तहसीलदार घंसौर
118-गोटेगांव (अ.जा.)	तहसीलदार गोटेगांव
	तहसीलदार नरसिंहपुर
	नायब तहसीलदार गोटेगांव
119-नरसिंहपुर	तहसीलदार नरसिंहपुर
	अपर तहसीलदार नरसिंहपुर
	तहसीलदार करेली
	नायब तहसीलदार नरसिंहपुर
	नायब तहसीलदार करेली
120-तेंदूखेड़ा	तहसीलदार तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर
	तहसीलदार गाडरवारा
	नायब तहसीलदार तेंदूखेड़ा
	नायब तहसीलदार गाडरवारा
121-गाडरवारा	तहसीलदार गाडरवारा
	अपर तहसीलदार गाडरवारा
	तहसीलदार साईंखेड़ा
	नायब तहसीलदार गाडरवारा
	नायब तहसीलदार साईंखेड़ा
122-जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	तहसीलदार जुन्नारदेव
	तहसीलदार तामिया
123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	तहसीलदार अमरवाड़ा
	तहसीलदार हरई
124-चौरई	तहसीलदार चौरई
	तहसीलदार चांद
	तहसीलदार बिछुआ

(1)	(2)
125-सौंसर	तहसीलदार सौंसर तहसीलदार मोहखेड़
126-छिंदवाड़ा	तहसीलदार छिंदवाड़ा
127-परासिया (अ.जा.)	तहसीलदार परासिया तहसीलदार उमरेठ
128-पांडुर्ना (अ.ज.जा.)	तहसीलदार पांडुर्ना
129-मुलताई	तहसीलदार मुलताई नायब तहसीलदार-1 मुलताई नायब तहसीलदार-2 मुलताई
130-आमला (अ.जा.)	तहसीलदार आमला तहसीलदार घोड़ाडोंगरी नायब तहसीलदार आमला
131-बैतूल	तहसीलदार बैतूल नायब तहसीलदार-1 बैतूल नायब तहसीलदार-2 बैतूल
132-घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार शाहपुर जिला बैतूल तहसीलदार चिचोली नायब तहसीलदार शाहपुर
133-भैंसदेही (अ.ज.जा.)	तहसीलदार भैंसदेही तहसीलदार आठनेर नायब तहसीलदार भैंसदेही
134-टिमरनी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार टिमरनी नायब तहसीलदार टिमरनी तहसीलदार रहटगांव नायब तहसीलदार रहटगांव तहसीलदार सिराली
135-हरदा	तहसीलदार हरदा तहसीलदार हंडिया नायब तहसीलदार हरदा तहसीलदार खिरकिया
136-सिवनी-मालवा	तहसीलदार सिवनी मालवा अतिरिक्त तहसीलदार केसला तहसीलदार डोलरिया

(1)	(2)
137-होशंगाबाद	तहसीलदार नर्मदापुरम (शहरी) तहसीलदार नर्मदापुरम (ग्रामीण) तहसीलदार इटारसी
138-सोहागपुर	तहसीलदार सोहागपुर जिला नर्मदापुरम तहसीलदार माखननगर नायब तहसीलदार इटारसी
139-पिपरिया (अ.जा.)	तहसीलदार पिपरिया नायब तहसीलदार पिपरिया तहसीलदार बनखेड़ी
140-उदयपुरा	तहसीलदार बरेली तहसीलदार उदयपुरा
141-भोजपुर	तहसीलदार गौहरगंज तहसीलदार बाड़ी
142-साँची (अ.जा.)	तहसीलदार रायसेन तहसीलदार गैरतगंज
143-सिलवानी	तहसीलदार बेगमगंज तहसीलदार सिलवानी
144-विदिशा	तहसीलदार (शहरी)विदिशा तहसीलदार गुलाबगंज
145-बासौदा	तहसीलदार बासौदा तहसीलदार त्योंदा तहसीलदार ग्यारसपुर
146-कुरवाई (अ.जा.)	तहसीलदार कुरवाई तहसीलदार पठारी
147-सिरोंज	तहसीलदार सिरोंज तहसीलदार लटेरी
148-शमशाबाद	तहसीलदार नटेरन तहसीलदार शमशाबाद
149-बैरसिया (अ.जा.)	तहसीलदार तहसील बैरसिया जिला भोपाल
150-भोपाल उत्तर	तहसीलदार नजूल वृत्त संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल
151-नरेला	तहसीलदार नजूल गोविंदपुरा वृत्त भोपाल
152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम	तहसीलदार नजूल टी.टी. नगर वृत्त भोपाल
153-भोपाल मध्य	तहसीलदार नजूल शहर वृत्त भोपाल
154-गोविंदपुरा	तहसीलदार नजूल एम. पी. नगर वृत्त भोपाल

(1)	(2)
155-हुजूर	तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल
156-बुधनी	तहसीलदार बुधनी तहसीलदार रेहटी तहसीलदार नसरुल्लागंज
157-आष्टा (अ.जा.)	तहसीलदार आष्टा तहसीलदार जावर
158-इछावर	तहसीलदार इछावर
159-सीहोर	तहसीलदार सीहोर तहसीलदार श्यामपुर
160-नरसिंहगढ़	तहसीलदार नरसिंहगढ़ नायब तहसीलदार कुरावर
161-ब्यावरा	तहसीलदार ब्यावरा तहसीलदार मलावर
162-राजगढ़	तहसीलदार राजगढ़ तहसीलदार खुजनेर
163-खिलचीपुर	तहसीलदार खिलचीपुर तहसीलदार जीरापुर
164-सारंगपुर (अ.जा.)	तहसीलदार सारंगपुर तहसीलदार पचोर
165-सुसनेर	तहसीलदार सुसनेर तहसीलदार नलखेड़ा
166-आगर (अ.जा.)	तहसीलदार आगर तहसीलदार बड़ौद
167-शाजापुर	तहसीलदार शाजापुर तहसीलदार मो बड़ोदिया
168-शुजालपुर	तहसीलदार शुजालपुर तहसीलदार गुलाना तहसीलदार पोलयाकलां
169-कालापीपल,	तहसीलदार कालापीपल तहसीलदार शुजालपुर तहसीलदार अवंतीपुरा बड़ोदिया तहसीलदार पोलयाकलां

(1)	(2)
170—सोनकच्छ (अ.जा.)	तहसीलदार टोकखुर्द तहसीलदार सोनकच्छ नायब तहसीलदार सोनकच्छ
171—देवास	तहसीलदार (शहरी) देवास नायब तहसीलदार—1 देवास नायब तहसीलदार—2 देवास
172—हाटपिपलिया	तहसीलदार (ग्रामीण) देवास तहसीलदार हाटपिपलिया नायब तहसीलदार हाटपिपलिया
173—खातेगांव	तहसीलदार कन्नौद तहसीलदार खातेगांव नायब तहसीलदार खातेगांव
174—बागली (अ.ज.जा.)	तहसीलदार बागली तहसीलदार सतवास तहसीलदार उदयनगर
175—मांधाता	तहसीलदार पुनासा तहसीलदार मूंदी नायब तहसीलदार मांधाता नायब तहसीलदार मोहना
176—हरसूद (अ.ज.जा.)	तहसीलदार हरसूद तहसीलदार खालवा नायब तहसीलदार रा.नि.म. खालवा तहसील खालवा नायब तहसीलदार रा.नि.म. रोशनी तहसील खालवा
177—खण्डवा (अ.जा.)	तहसीलदार खण्डवा नायब तहसीलदार रा.नि.म. खण्डवा—1 तहसील खण्डवा नायब तहसीलदार रा.नि.म. खण्डवा —2 तहसील खण्डवा नायब तहसीलदार रा.नि.म. जावर तहसील खण्डवा
178—पंधाना (अ.ज.जा.)	तहसीलदार पंधाना नायब तहसीलदार पंधाना नायब तहसीलदार रा.नि.म. सिंगोट तहसील खण्डवा नायब तहसीलदार रा.नि.म. छैगांवमाखन तहसील खण्डवा
179—नेपानगर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार नेपानगर (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) नायब तहसीलदार नेपानगर (नेपानगर शहरी क्षेत्र हेतु) तहसीलदार खकनार
180—बुरहानपुर	तहसीलदार बुरहानपुर (बुरहानपुर ग्रामीण क्षेत्र एवं शाहपुर नगरीय क्षेत्र हेतु) तहसीलदार बुरहानपुर (नगर) (बुरहानपुर शहरी क्षेत्र हेतु)
181—भीकनगांव (अ.ज.जा.)	तहसीलदार भीकनगांव

(1)	(2)
182—बड़वाहा	तहसीलदार बड़वाहा
183—महेश्वर (अ.जा.)	तहसीलदार महेश्वर
184—कसरावद	तहसीलदार कसरावद
185—खरगोन	तहसीलदार खरगोन
186—भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	तहसीलदार भगवानपुरा
187—सेंधवा (अ.ज.जा.)	तहसीलदार सेंधवा तहसीलदार वरला
188—राजपुर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार ठीकरी तहसीलदार राजपुर तहसीलदार अंजड़
189—पानसेमल (अ.ज.जा.)	तहसीलदार पानसेमल तहसीलदार निवाली तहसीलदार राजपुर
190—बड़वानी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार बड़वानी तहसीलदार पाटी
191—अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार अलीराजपुर तहसीलदार सोंडवा
192—जोबट (अ.ज.जा.)	तहसीलदार जोबट तहसीलदार चन्द्रशेखर आजाद नगर
193—झाबुआ (अ.ज.जा.)	तहसीलदार झाबुआ तहसीलदार राणापुर नायब तहसीलदार झाबुआ
194—थांदला (अ.ज.जा.)	तहसीलदार थांदला तहसीलदार मेघनगर नायब तहसीलदार थांदला
195—पेटलावद (अ.ज.जा.)	तहसीलदार पेटलावद तहसीलदार रामा नायब तहसीलदार पेटलावद
196—सरदारपुर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार सरदारपुर अतिरिक्त तहसीलदार सरदारपुर
197—गंधवानी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार गंधवानी अतिरिक्त तहसीलदार कुक्षी अधीक्षक भू-प्रबंधन धार
198—कुक्षी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार कुक्षी तहसीलदार डही
199—मनावर (अ.ज.जा.)	तहसीलदार मनावर
200—धरमपुरी (अ.ज.जा.)	तहसीलदार धरमपुरी अधीक्षक भू-अभिलेख धार

(1)	(2)
201-धार	तहसीलदार धार तहसीलदार पीथमपुर
202-बदनावर	तहसीलदार बदनावर अतिरिक्त तहसीलदार धार
203-देपालपुर	तहसीलदार हातोद तहसीलदार देपालपुर
204-इंदौर-1	तहसीलदार मल्हारगंज नायब तहसीलदार मल्हारगंज
205-इंदौर-2	तहसीलदार कनाड़िया नायब तहसीलदार कनाड़िया
206-इंदौर-3	तहसीलदार जूनी इंदौर नायब तहसीलदार जूनी इंदौर
207-इंदौर-4	तहसीलदार खुडेल नायब तहसीलदार खुडेल
208-इंदौर-5	तहसीलदार भिचौली हप्पी नायब तहसीलदार भिचौली हप्पी
209-डॉ. अम्बेडकर नगर-महू	तहसीलदार महू नायब तहसीलदार मानपुर
210-राऊ	तहसीलदार राऊ नायब तहसीलदार राऊ
211-सांवेर (अ.जा.)	तहसीलदार सांवेर नायब तहसीलदार सांवेर
212-नागदा-खाचरौद	तहसीलदार खाचरौद तहसीलदार नागदा नायब तहसीलदार खाचरोद
213-महिदपुर	तहसीलदार महिदपुर तहसीलदार झारडा नायब तहसीलदार महिदपुर
214-तराना (अ.जा.)	तहसीलदार तराना तहसीलदार माकड़ोन नायब तहसीलदार तराना
215-घटिया (अ.जा.)	तहसीलदार घटिया नायब तहसीलदार टप्पा पानबिहार नायब तहसीलदार टप्पा उन्हेल
216-उज्जैन उत्तर	तहसीलदार उज्जैन शहर अपर तहसीलदार उज्जैन शहर नायब तहसीलदार उज्जैन शहर

(1)	(2)
217-उज्जैन दक्षिण	तहसीलदार तहसील उज्जैन ग्रामीण अपर तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण नायब तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण
218-बड़नगर	तहसीलदार बड़नगर नायब तहसीलदार टप्पा इंगोरिया नायब तहसीलदार बड़नगर
219-रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.)	तहसीलदार रतलाम ग्रामीण
220-रतलाम सिटी	तहसीलदार रतलाम सिटी
221-सैलाना (अ.ज.जा.)	तहसीलदार सैलाना तहसीलदार बाजना तहसीलदार रावटी
222-जावरा	तहसीलदार जावरा तहसीलदार पिपलोधा
223-आलोट (अ.जा.)	तहसीलदार आलोट तहसीलदार ताल
224-मंदसौर	तहसीलदार मंदसौर नायब तहसीलदार-1 मंदसौर नायब तहसीलदार-2 मंदसौर
225-मल्हारगढ़ (अ.जा.)	तहसीलदार मल्हारगढ़ नायब तहसीलदार-1 मल्हारगढ़ नायब तहसीलदार-2 संजीत
226-सुवासरा	तहसीलदार सुवासरा नायब तहसीलदार-1 सीतामऊ नायब तहसीलदार-2 सुवासरा
227-गरोठ	तहसीलदार गरोठ नायब तहसीलदार-1 गरोठ नायब तहसीलदार-2 भानपुरा
228-मनासा	तहसीलदार मनासा तहसीलदार रामपुरा
229-नीमच	तहसीलदार नीमच तहसीलदार जीरन
230-जावद	तहसीलदार जावद तहसीलदार सिंगोली

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 07th July, 2023- 16 Ashadha, 1945 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 429-MP-2023(2)- In pursuance of provisions of sub-section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), and in supersession of its notification No. 429-MP-2011 (2) dated 16th September, 2011, as amended from time to time, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, the Officers of the said Government as specified in column (2) of the table below, as the Assistant Electoral Registration Officer of the Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, as specified in column (1) of the said Table against such officer:-

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Electoral Registration Officer (2)
1-Sheopur	Tehsildar sheopur Tehsildar Baroda Nayab Tehsildar Manpur
2-Vijaypur	Tehsildar Vijaypur Tehsildar Birpur Tehsildar karahal
3-Sabalgarh	Tehsildar Sabalgarh Nayab Tehsildar-1 Sabalgarh Nayab Tehsildar-1 Kailaras
4-Joura	Tehsildar kailaras Nayab Tehsildar-1 joura Nayab Tehsildar-2 joura
5-Sumawali	Tehsildar Joura Nayab Tehsildar-Morena Urban Nayab Tehsildar-3 Joura
6-Morena	Tehsildar Morena Urban Tehsildar . Banmore Nayab Tehsildar .1 Morena Rural

(1)	(2)
7-Dimani	Tehsildar Ambah Nayab Tehsildar-1 Ambah Nayab Tehsildar-2 Morena Rural
8-Ambah (SC)	Tehsildar Porsa Nayab Tehsildar-2 Ambah Nayab Tehsildar Porsa
9-Ater	Tehsildar Ater Nayab Tehsildar Surpura
10-Bhind	Tehsildar Bhind (Urban) Tehsildar Bhind (Rural)
11-Lahar	Tehsildar Lahar Tehsildar Mihona
12-Mehgaon	Tehsildar Mehgaon Tehsildar Gormi
13-Gohad (SC)	Tehsildar Gohad Tehsildar Mou
14-Gwalior Rural	Tehsildar Tansen Nayab Tehsildar badagaon Nayab Tehsildar Purani Chhavani
15-Gwalior	Additional Tehsildar Kuleth Additional Tehsildar Bahodapur Nayab Tehsildar Morar
16-Gwalior East	Tehsildar Morar Tehsildar City Center Additional Tehsildar Mehalgaon
17-Gwalior South	Tehsildar Gwalior Circle Girwai Additional Tehsildar Circle Lashkar Superintendent Land Records (Regular)
18-Bhitarwar	Tehsildar Bhitarwar Tehsildar Chhinor Tehsildar Ghatigaon
19-Dabra (SC)	Tehsildar Dabra Nayab Tehsildar Revenue Circle Biluoa

(1)	(2)
	Nayab Tehsildar Revenue Circle Pichhor
20-Sewda	Tehsildar Sewda
21-Bhander (SC)	Tehsildar Bhander
22-Datia	Tehsildar Datia
23-Karera (SC)	Tehsildar Karera
	Tehsildar Narwar
24-Pohari	Tehsildar Pohari
	Tehsildar Bairad
25-Shivpuri	Tehsildar Shivpuri
	Nayab Tehsildar Shivpuri
26-Pichhore	Tehsildar Pichhore
	Tehsildar Khaniyadhana
27-Kolaras	Tehsildar Kolaras
	Tehsildar Badarwas
28-Bamori	Tehsildar Bamori
	Tehsildar Guna (Rural)
29-Guna (SC)	Tehsildar Guna
	Tehsildar Guna (Rural)
	Tehsildar Aron
30-Chachoura	Tehsildar Chachoura
	Tehsildar Kumbhraj
	Tehsildar Madhusudangarh
31-Raghogarh	Tehsildar Raghogarh
	Tehsildar Aron
	Tehsildar Madhusudangarh
32-Ashok Nagar (SC)	Tehsildar Ashoknagar
	Nayab Tehsildar Ashok Nagar
	Tehsildar Shadora
33-Chanderi	Tehsildar Chanderi
	Tehsildar Isagarh

(1)	(2)
34-Mungaoli	Tehsildar Naisaray Tehsildar Mungaoli Tehsildar Piprai Tehsildar Bahadurpur
35-Bina (SC)	Tehsildar Chanderi Tehsildar Bina
36-Khurai	Tehsildar Khurai Tehsildar Malthone
37-Surkhi	Tehsildar Rahatgarh Tehsildar Jaisinagar
38-Deori	Tehsildar Deori Tehsildar Kesli
39-Rehli	Tehsildar Rehli Tehsildar Garahkota
40-Naryoli (SC)	Tehsildar Sagar
41-Sagar	Tehsildar (Urban) Sagar Superintendent Land Records Sagar
42-Banda	Tehsildar Banda Tehsildar Shahgarh
43-Tikamgarh	Tehsildar Tikamgarh Tehsildar Badagaon Nayab Tehsildar Samarra
44-Jatara (SC)	Tehsildar Jatara Tehsildar Lidhora Nayab Tehsildar Barana
45-Prithvipur	Tehsildar Prithvipur Nayab Tehsildar Jeron Khalsa Nayab Tehsildar Neguwa
46-Niwari	Tehsildar Niwari Nayab Tehsildar Taricharkala

(1)	(2)
	Tehsildar Orchha
47-Khargapur	Tehsildar Baldevgarh Tehsildar Khargapur Tehsildar Palera
48-Maharajpur	Tehsildar Nowgaon Nayab Tehsildar Nowgaon Tehsildar Maharajpur
49-Chandla (SC)	Tehsildar Lavkushnagar Tehsildar Chandla Tehsildar Gaurihar
50-Rajnagar	Tehsildar Rajnagar Nayab Tehsildar Rajnagar Nayab Tehsildar Chandranagar
51-Chhatarpur	Tehsildar Chhatarpur (Nagar) Tehsildar Chhatarpur (Grameen) Nayab Tehsildar Chhatarpur
52-Bijawar	Tehsildar Bijawar Nayab Tehsildar Bijawar Nayab Tehsildar Devra
53-Malhara	Tehsildar Bada-Malhara Tehsildar Bakswaha Tehsildar Ghuwara
54-Pathariya	Incharge Tehsildar Pathariya Incharge Tehsildar Batiyagarh
55-Damoh	Tehsildar Damoh Tehsildar Damyantipuram Damoh
56-Jabera	Tehsildar Tendukheda District Damoh Incharge Tehsildar Jabera
57-Hatta (SC)	Incharge Tehsildar Hatta Nayab Tehsildar Patera
58-Pawai	Tehsildar Pawai Tehsildar Shahnagar Tehsildar Simariya Tehsildar Raipura

(1)	(2)
59-Gunnaor (SC)	Tehsildar Gunnaor Tehsildar Devendra nagar Tehsildar Amanganj
60- Panna	Tehsildar Panna Tehsildar Ajaigarh Superintendent Land Record Panna
61-Chitrakoot	Tehsildar Majhgawan Tehsildar Birsinghpur
62-Raigaon (SC)	Tehsildar Kothi Tehsildar Nagod
63-Satna	Tehsildar Raghurajnagar
64-Nagod	Tehsildar Nagod Tehsildar Unchehra
65-Maihar	Tehsildar Maihar
66-Amarpatan	Tehsildar Amarpatan Tehsildar Ramnagar
67-Rampur Baghelan	Tehsildar Rampur Baghelan Tehsildar Kotar
68-Sirmour	Tehsildar Sirmour Tehsildar Jawa
69-Semariya	Tehsildar Semariya Tehsildar Huzur (Gramin) Rewa
70-Teonthar	Tehsildar Teonthar
71-Mauganj	Tehsildar Hanumana Tehsildar Mauganj
72-Deotalab	Tehsildar Mauganj Tehsildar Naigarhi
73-Mangawan (SC)	Tehsildar Mangawan Tehsildar Sirmaur
74-Rewa	Tehsildar Hujur Rewa (Urban) Tehsildar Hujur Rewa (Rural)

(1)	(2)
75-Gurh	Tehsildar Gurh Tehsildar Raipur Karchuliyar
76-Churhat	Tehsildar Churhat Tehsildar Rampur Naikin Nayab Tehsildar Churhat
77-Sidhi	Tehsildar Gopad Banas Nayab Tehsildar Gopad Banas Nayab Tehsildar (Semariya) Gopad Banas
78-Sihawal	Tehsildar Sihawal Tehsildar Bahari Nayab Tehsildar Sihawal
79-Chitrangi (ST)	Tehsildar Chitrangi
80-Singrauli	Tehsildar Singrauli
81-Devsar (SC)	Tehsildar Devsar
82-Dhauhani (ST)	Tehsildar Majhauri Tehsildar Kusmi Nayab Tehsildar Majhauri
83-Beohari (ST)	Tehsildar Beohari Nayab Tehsildar Jaisingnagar Nayab Tehsildar Beohari
84- Jaisingnagar (ST)	Tehsildar Sohagpur, Distt. Shahdol Nayab Tehsildar Gohparu Nayab Tehsildar Sohagpur
85-Jaitpur (ST)	Tehsildar Jaitpur Nayab Tehsildar Burhar Nayab Tehsildar Jaitpur
86-Kotma	Tehsildar Kotma
87-Anuppur (ST)	Tehsildar Anuppur
88-Pushprajgarh (ST)	Tehsildar Pushprajgarh
89-Bandhavgarh (ST)	Tehsildar Bandhavgarh Tehsildar Chandia Tehsildar Nowrozabad

(1)	(2)
90-Manpur (ST)	Tehsildar Manpur Tehsildar Pali
91-Barwara (ST)	Tehsildar Barwara Tehsildar Dheemarkhedha
92-Vijayraghavgarh	Tehsildar Vijayraghavgarh Tehsildar Barhi
93-Murwara	Tehsildar Shahar Tehsildar Grameen
94-Bahoriband	Tehsildar Bahoriband Tehsildar Rithi
95-Patan	Tehsildar Patan Tehsildar Majhauri Nayab Tehsildar Katangi Jabalpur
96-Bargi	Tehsildar Jabalpur (Rural) Tehsildar Shahpura Distt. Jabalpur
97-Jabalpur Purba (SC)	Tehsildar Najul Collectorate Jabalpur Nayab Tehsildar Najul Collectorate Jabalpur
98-Jabalpur Uttar	Tehsildar Adhartal Jabalpur
99-Jabalpur Cantt.	Tehsildar Ranjhi Jabalpur
100-Jabalpur Paschim	Tehsildar Gorakhpur Jabalpur Nayab Tehsildar Gorakhpur Jabalpur
101-Panagar	Tehsildar Panagar Jabalpur Tehsildar Barela Jabalpur
102-Sihora (ST)	Tehsildar Sihora Jabalpur Tehsildar Kundam Jabalpur
103-Shahpura (ST)	Tehsildar Shahpura Distt. Dindori
104-Dindori (ST)	Tehsildar Dindori Tehsildar Bajag

(1)	(2)
105-Bichhiya (ST)	Tehsildar Ghughri Tehsildar Bichhiya
106-Niwas (ST)	Tehsildar Narayanganj Tehsildar Niwas Tehsildar Mandla
107-Mandla (ST)	Tehsildar Nainpur Tehsildar Mandla
108-Baihar (ST)	Tehsildar Baihar Tehsildar Birsa
109-Lanji	Tehsildar Lanji Tehsildar Kirnapur
110-Paraswada	Tehsildar Paraswada Nayab Tehsildar-1 Lamta Balaghat
111-Balaghat	Tehsildar Balaghat Tehsildar Lalbarra
112-Waraseoni	Tehsildar Waraseoni Tehsildar Khairlanji
113-Katangi	Tehsildar Katangi Tehsildar Terodi
114-Barghat (ST)	Tehsildar Barghat Tehsildar Kurai
115-Seoni	Tehsildar Seoni Tehsildar Chapara
116-Keolari	Tehsildar Keolari Tehsildar Dhanora
117-Lakhnadon (ST)	Tehsildar Lakhnadon Tehsildar Ghansor

(1)	(2)
118-Gotegaon (SC)	Tehsildar Gotegaon Tehsildar Narsingpur Nayab Tehsildar Gotegaon Nayab Tehsildar Narsingpur
119-Narsingpur	Tehsildar Narsingpur Additional Tehsildar Narsingpur Tehsildar Kareli Nayab Tehsildar Narsingpur Nayab Tehsildar Kareli
120-Tendukheda	Tehsildar Tendukheda Distt. Narsingpur Tehsildar Gadarwara Nayab Tehsildar Tendukheda Nayab Tehsildar Gadarwara
121-Gadarwara	Tehsildar Gadarwara Additional Tehsildar Gadarwara Tehsildar Saikheda Nayab Tehsildar Gadarwara Nayab Tehsildar Saikheda
122-Juunardeo (ST)	Tehsildar Juunardeo Tehsildar Tamia
123-Amarwara (ST)	Tehsildar Amarwara Tehsildar Harrai
124-Churai	Tehsildar Churai Tehsildar Chand Tehsildar Bichhua
125-Saunsar	Tehsildar Saunsar Tehsildar Mohkhed
126-Chhindwara	Tehsildar Chhindwara
127-Parasia (SC)	Tehsildar Parasia Tehsildar Umreth
128-Pandhurna (ST)	Tehsildar Pandhurna
129-Multai	Tehsildar Multai Nayab Tehsildar-1 Multai Nayab Tehsildar-2 Multai

(1)	(2)
130-Amla(SC)	Tehsildar Amla
	Tehsildar Ghoradongri
	Nayab Tehsildar Amla
131-Betul	Tehsildar Betul
	Nayab Tehsildar-1 Betul
	Nayab Tehsildar-2 Betul
132-Ghoradongri (ST)	Tehsildar Shahpur District Betul
	Tehsildar Chicholi
	Nayab Tehsildar Shahpur
133-Bhainsdehi (ST)	Tehsildar Bhainsdehi
	Tehsildar Athner
	Nayab Tehsildar Bhainsdehi
134-Timarni (ST)	Tehsildar Timarni
	Nayab Tehsildar Timarni
	Tehsildar Rahatgaon
	Nayab Tehsildar Rahatgaon
	Tehsildar Sirali
135-Harda	Tehsildar Harda
	Tehsildar Handia
	Nayab Tehsildar Harda
	Tehsildar Khirkiya
136-Seoni-Malwa	Tehsildar Seoni Malwa
	Additional Tehsildar Kesla
	Tehsildar Dolariya
137-Hoshangabad	Tehsildar Narmadapuram (Urban)
	Tehsildar Narmadapuram (Rural)
	Tehsildar Itarsi
138-Sohagpur	Tehsildar Sohagpur District Narmadapuram
	Tehsildar Makhannagar
	Nayab Tehsildar Itarsi

(1)	(2)
139-Pipariya (SC)	Tehsildar Pipariya Nayab Tehsildar Pipariya Tehsildar Bankhedi
140-Udaipura	Tehsildar Bareli Tehsildar Udaipura
141-Bhojpur	Tehsildar Goharganj Tehsildar Badi
142-Sanchi (SC)	Tehsildar Raisen Tehsildar Gairatganj
143-Silwani	Tehsildar Begamganj Tehsildar Silwani
144-Vidisha	Tehsildar (Urban)Vidisha Tehsildar Gulabganj
145-Basoda	Tehsildar Basoda Tehsildar Tyonda Tehsildar Gyarpur
146-Kurwai (SC)	Tehsildar Kurwai Tehsildar Pathari
147-Sironj	Tehsildar Sironj Tehsildar Lateri
148-Shamshabad	Tehsildar Nateran Tehsildar Shamshabad
149-Berasia (SC)	Tehsildar Tehsil Berasia District Bhopal
150-Bhopal Uttar	Tehsildar Nazul Circle Sant Hirdaram Nagar (Bairagarh) Bhopal
151-Narela	Tehsildar Nazul Govindpura Circle Bhopal
152-Bhopal Dakshin-Paschim	Tehsildar Nazul T.T. Nagar Circle Bhopal
153-Bhopal Madhya	Tehsildar Nazul City Circle Bhopal
154-Govindpura	Tehsildar Nazul M.P. Nagar Circle Bhopal
155-Huzur	Tehsildar Tehsil Huzur District Bhopal
156-Budhni	Tehsildar Budhni Tehsildar Rehti Tehsildar Nasrullaganj

(1)	(2)
157-Ashta (SC)	Tehsildar Ashta
	Tehsildar Jawar
158-Ichhawar	Tehsildar Ichhawar
159-Sehore	Tehsildar Sehore
	Tehsildar Shyampur
160-Narsinghgarh	Tehsildar Narsinghgarh
	Nayab Tehsildar Kurawar
161-Biaora	Tehsildar Biaora
	Tehsildar Malawar
162-Rajgarh	Tehsildar Rajgarh
	Tehsildar Khujner
163-Khilchipur	Tehsildar Khilchipur
	Tehsildar Jirapur
164-Sarangpur (SC)	Tehsildar Sarangpur
	Tehsildar Pachor
165-Susner	Tehsildar Susner
	Tehsildar Nalkheda
166-Agar (SC)	Tehsildar Agar
	Tehsildar Barod
167-Shajapur	Tehsildar Shajapur
	Tehsildar Mo. Badodiya
168-Shujalpur	Tehsildar Shujalpur
	Tehsildar Gulana
	Tehsildar Polyakalan
169-Kalapipal	Tehsildar Kalapipal
	Tehsildar Shujalpur
	Tehsildar Avantipura Badodiya
	Tehsildar Polyakalan
170-Sonkatch (SC)	Tehsildar Tok khurd
	Tehsildar Sonkatch
	Nayab Tehsildar Sonkatch

(1)	(2)
171-Dewas	Tehsildar (Urban) Dewas Nayab Tehsildar-1 Dewas Nayab Tehsildar-2 Dewas
172-Hatpipliya	Tehsildar (Rural) Dewas Tehsildar Hatpipliya Nayab Tehsildar Hatpipliya
173-Khategaon	Tehsildar Kannod Tehsildar Khategaon Nayab Tehsildar Khategaon
174-Bagali (ST)	Tehsildar Bagali Tehsildar Satwas Tehsildar Udaynagar
175-Mandhata	Tehsildar Punasa Tehsildar Mundi Nayab Tehsildar Mandhata Nayab Tehsildar Mohana
176-Harsud (ST)	Tehsildar Harsud Tehsildar Khalwa Nayab Tehsildar R.I. Circle Khalwa Tehsil Khalwa Nayab Tehsildar R.I. Circle Roshni Tehsil Khalwa
177-Khandwa (SC)	Tehsildar Khandwa Nayab Tehsildar R.I. Circle Khandwa-1 Tehsil Khandwa Nayab Tehsildar R.I. Circle Khandwa-2 Tehsil Khandwa Nayab Tehsildar R.I. Circle Jawar Tehsil Khandwa
178-Pandhana (ST)	Tehsildar Pandhana Nayab Tehsildar Pandhana Nayab Tehsildar R.I. Circle Singot Tehsil Khandwa Nayab Tehsildar R.I. Circle Chhaigaonmakhan Tehsil Khandwa
179-Nepanagar (ST)	Tehsildar Nepanagar (For Rural Area) Nayab Tehsildar Nepanagar (For Nepanagar Urban Area) Tehsildar Khaknar

(1)	(2)
180-Burhanpur	Tehsildar Burhanpur (For Burhanpur Rural and Shahpur Urban Area) Tehsildar Burhanpur (Nagar) (For Burhanpur Urban Area)
181-Bhikangaon (ST)	Tehsildar Bhikangaon
182-Badwah	Tehsildar Badwah
183-Maheshwar (SC)	Tehsildar Maheshwar
184-Kasrawad	Tehsildar Kasrawad
185-Khargone	Tehsildar Khargone
186-Bhagwanpura (ST)	Tehsildar Bhagwanpura
187-Sendhawa (ST)	Tehsildar Sendhawa Tehsildar Warla
188-Rajpur (ST)	Tehsildar Thikri Tehsildar Rajpur Tehsildar Anjad
189-Pansema (ST)	Tehsildar Pansema Tehsildar Niwali Tehsildar Rajpur
190-Badwani (ST)	Tehsildar Badwani Tehsildar Pati
191-Alirajpur (ST)	Tehsildar Alirajpur Tehsildar Sondwa
192-Jobat (ST)	Tehsildar Jobat Tehsildar Chandrashekhar Aajad Nagar
193-Jhabua (ST)	Tehsildar Jhabua Tehsildar Ranapur Nayab Tehsildar Jhabua
194-Thandla (ST)	Tehsildar Thandla Tehsildar Meghnagar Nayab Tehsildar Thandla

(1)	(2)
195-Petlawad (ST)	Tehsildar Petlawad Tehsildar Rama Nayab Tehsildar Petlawad
196-Sardarpur (ST)	Tehsildar Sardarpur Additional Tehsildar Sardarpur
197-Gandhwani (ST)	Tehsildar Gandhwani Additional Tehsildar Kukshi Superintendent Land Management Dhar
198-Kukshi (ST)	Tehsildar Kukshi Tehsildar Dahi
199-Manawar (ST)	Tehsildar Manawar
200-Dharamपुर (ST)	Tehsildar Dharamपुर Superintendent Land Record Dhar
201-Dhar	Tehsildar Dhar Tehsildar Pithampur
202-Badnawar	Tehsildar Badnawar Additional Tehsildar Dhar
203-Depalpur	Tehsildar Hatod Tehsildar Depalpur
204-Indore-1	Tehsildar Malharganj Nayab Tehsildar Malharganj
205-Indore-2	Tehsildar Kanadiya Nayab Tehsildar Kanadiya
206-Indore-3	Tehsildar Juni Indore Nayab Tehsildar Juni Indore
207-Indore-4	Tehsildar Khudel Nayab Tehsildar Khudel
208-Indore-5	Tehsildar Bhicholi Hapsi Nayab Tehsildar Bhicholi Hapsi
209-Dr. Ambedkar Nagar-Mhow	Tehsildar Mhow Nayab Tehsildar Manpur

(1)	(2)
210-Rau	Tehsildar Rau Nayab Tehsildar Rau
211-Sanwer (SC)	Tehsildar Sanwer Nayab Tehsildar Sanwer
212-Nagada-Khachrod	Tehsildar Khachrod Tehsildar Nagada Nayab Tehsildar Khachrod
213-Mahidpur	Tehsildar Mahidpur Tehsildar Jharda Nayab Tehsildar Mahidpur
214-Tarana (SC)	Tehsildar Tarana Tehsildar Makdon Nayab Tehsildar Tarana
215-Ghatiya (SC)	Tehsildar Ghatiya Nayab Tehsildar Tappa Panbihar Nayab Tehsildar Tappa Unhel
216-Ujjain Uttar	Tehsildar Ujjain City Upper Tehsildar Ujjain City Nayab Tehsildar Ujjain City
217-Ujjain Dakshin	Tehsildar Teshil Ujjain Rural Upper Tehsildar Ujjain Rural Nayab Tehsildar Ujjain Rural
218-Badnagar	Tehsildar Badnagar Nayab Tehsildar Tappa Ingoriya Nayab Tehsildar Badnagar
219-Ratlam Rural (ST)	Tehsildar Ratlam Rural
220-Ratlam City	Tehsildar Ratlam City
221-Sailana (ST)	Tehsildar Sailana Tehsildar Bajna Tehsildar Raoti

(1)	(2)
222-Jaora	Tehsildar Jaora
	Tehsildar Piplodha
223-Alot (SC)	Tehsildar Alot
	Tehsildar Tal
224-Mandsour	Tehsildar Mandsour
	Nayab Tehsildar-1 Mandsour
	Nayab Tehsildar-2 Mandsour
225-Malhargarh (SC)	Tehsildar Malhargarh
	Nayab Tehsildar-1 Malhargarh
	Nayab Tehsildar-2 Sanjeet
226-Suwasra	Tehsildar Suwasra
	Nayab Tehsildar-1 Sitamau
	Nayab Tehsildar-2 Suwasra
227-Garoth	Tehsildar Garoth
	Nayab Tehsildar-1 Garoth
	Nayab Tehsildar-2 Bhanpura
228-Manasa	Tehsildar Manasa
	Tehsildar Rampura
229-Neemuch	Tehsildar Neemuch
	Tehsildar Jiran
230-Jawad	Tehsildar Jawad
	Tehsildar Singoli

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.